



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2009/माघ 24, 1930

No. 286]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2009/MAGHA 24, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2009

का.आ. 467(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1051(अ) तारीख 30 अप्रैल, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के मद्रुरै जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 426.661 कि.मी. (बंगलौर-सेलम-मद्रुरै सेक्शन) से 41.000 कि.मी. (मद्रुरै-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 10 जून, 2008 को "दि हिन्दू" और "डेली थाँथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 426.661 कि.मी. (बंगलौर-सेलम-मदुरै सेक्शन) से 41.000 कि.मी. (मदुरै-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या/उप मंडल संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी/हितवद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मदुरई	मदुरई दक्षिण	विलाचेरी प्रथम बिट	1ए/14ए	निजी	नम	792	1. मगेश्वरी 2. मीनाक्षी
				3/1ए	निजी	नम	263	ए. वेलू सर्वई
				3/1सी	निजी	नम	115	ए. वेलू सर्वई
				3/2ए	निजी	नम	1117	एन. वेलू सर्वई
				3/3ए	निजी	नम	547	एम. वेलायूथम
				3/2सी	निजी	नम	171	पी. नगामलाई
				3/7	निजी	नम	1150	वी. मुथुवेलायूथम
				3/8	निजी	नम	1100	1. वेलायूथम 2. नगामलाई
				3/11बी	निजी	नम	143	वेलू सर्वई
				3/12ए	निजी	नम	530	1. मगेश्वरी 2. मीनाक्षी
				3/9ए1	निजी	नम	508	एम. नगामलाई
				3/9बी1	निजी	नम	39	गिरिदा सुहासिनी
				4/1ए	निजी	नम	710	एम. थरमराजा
				5/7बी3	निजी	नम	171	एम. अन्नालक्ष्मी, पत्नी (स्व.) मुथुवेल थेवर और अन्य
				5/8बी3	निजी	नम	565	1. नगामलाई 2. मुथईया 3. वेलायूथम
				6/9	निजी	नम	55	एन. नगामलाई
				22/9	निजी	नम	126	एम. वेलायूथम
				25/2ए	निजी	नम	688	गिरिदा सुहासिनी
				25/3बी	निजी	नम	200	चोकालिगम पिल्लई
				25/5ए	निजी	नम	520	आर. कल्याणसुंदरम
				25/5बी	निजी	नम	1130	1. सोलविलंगम पेरूमल 2. सक्ति पेरूमल
				30/1ए	निजी	नम	1110	आर. मुथुवेल
				30/2ए1	निजी	नम	658	मगालिगम और 7 अन्य
				30/2ए2	निजी	नम	570	गिरिदा सुहासिनी
				30/3ए1	निजी	नम	354	एम. ईथयास और 4 अन्य
				25/4	सरकारी	कोईल पोरमबोके	500	सरकारी

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2009

S.O. 467(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number **S.O.1051 (E)**, dated the **30th April, 2008**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, on the stretch of land from Km 426.661 (Bangalore – Salem – Madurai Section) to Km 41.000 (Madurai - Kanniyakumari Section) in Madurai District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" and "Daily Thanthi", both dated the 10th June, 2008; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.426.661 (Bangalore – Salem – Madurai Section) to Km 41.000 (Madurai - Kanniyakumari section) of the National Highways No.7 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number/Sub-division number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Madurai	Madurai South	Vilacheri 1st Bit	1A/14A	Private	Wet	792	1. Mageswari 2. Meenakshi
				3/1A	Private	Wet	263	A. Velu Servai
				3/1C	Private	Wet	115	A. Velu Servai
				3/2A	Private	Wet	1117	N. Velu Servai
				3/3A	Private	Wet	547	M. Velayutham
				3/2C	Private	Wet	171	P. Nagamalai
				3/7	Private	Wet	1150	V. Muthuvelayutham
				3/8	Private	Wet	1100	1. Velayutham 2. Nagamalai
				3/11B	Private	Wet	143	Velu Servai
				3/12A	Private	Wet	530	1. Mageswari 2. Meenakshi
				3/9A1	Private	Wet	508	M. Nagamalai
				3/9B1	Private	Wet	39	Girida Suhasini
				4/1A	Private	Wet	710	M. Tharmaraja
				5/7B3	Private	Wet	171	M. Annalakshimi, W/o. (Late) Muthuvel Thevar and others
				5/8B3	Private	Wet	565	1. Nagamalai 2. Muthaiya 3. Velayutham
				6/9	Private	Wet	55	N. Nagamalai
				22/9	Private	Wet	126	M. Velayutham
				25/2A	Private	Wet	688	Girida Suhasini
				25/3B	Private	Wet	200	Chockalingam Pillai
				25/5A	Private	Wet	520	R. Kalyanasundaram
				25/5B	Private	Wet	1130	1. Solvilangum perumal 2. Sakthi Perumal
				30/1A	Private	Wet	1110	R. Muthuvel
				30/2A1	Private	Wet	658	Magalingam and 7 others
				30/2A2	Private	Wet	570	Girida Suhasini
				30/3A1	Private	Wet	354	M. Ithayas and 4 others
				25/4	Government	Koil Poramboke	500	Government

[F. No. NHAI/Tech./LA/MK/Thoppur 3(A) 1/2007]

PRABHAKAR, Dy. Secy.